



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 615 राँची, शुक्रवार 30 कार्तिक 1936 (श०)

21 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2014

संख्या-1/विविध-888/05 खंड का० - 11123--प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एस०के० शतपथी, भा.प्र.से. (झा:86) के दिनांक 23 नवम्बर, 2014 से विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री एन०एन० पाण्डेय, भा.प्र.से. (झा:83), प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा कौंशी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 615—50।